



Vatsalya Senior Secondary School, Vidisha
Primary Section

May Planner
Class-II

विषय :- हिन्दी

पाठ १

ऊँट चला

कठिन शब्द

१. ऊँट
 २. हिलता
 ३. गर्दन
 ४. बोझ
 ५. बैठेगा
 ६. थककर
 ७. करवट
 ८. फँसेगा
 ९. पूँछ
 १०. ढोने
-

शब्दार्थ

१. कोमल = मुलायम
 २. बालू = रेत
 ३. बोझ = वजन
 ४. रेगिस्तान = मरुस्थल
 ५. भला = अच्छा
-

प्रश्न-उत्तर

प्रश्न :-१. बालू या रेत कहाँ पर मिलती है ?

उत्तर :-बालू या रेत समुद्र किनारे या रेगिस्तान में मिलती है।

प्रश्न :-२ ऊँट के नीचे से क्या-क्या निकल सकता है ?

उत्तर :-ऊँट के नीचे से एक छोटा बच्चा ,भेड़ ,बकरी ,कुत्ता और सभी छोटी चीजें निकल सकती है।

प्रश्न :-३। नीचे कुछ शब्द लिखें है | इन्हें बोलकर देखो और ऐसे ही कुछ शब्द लिखो |

| | | | | |
|-----|------|-----|-----|----|
| ऊँट | बालू | फँस | चला | जब |
| जूट | आलू | धँस | भला | कब |
| सूट | चालू | हँस | गला | तब |

प्रश्न :-४ ऊँट से ऊँची चीजों के नाम पर गोला लगाओ ,

उत्तर :- बछिया

तुम्हारी कक्षा की छत

बिजली का खंभा

कार

आदमी

आम का पेड़

हिरण

हाथी

पाठ २

भालू ने खेली फुटबॉल

कठिन शब्द

- १ सर्दियों
- २ मौसम
- ३ कोहरा
- ४ जामुन
- ५ फुटबॉल
- ६ साहब
- ७ परेशान
- ८ माली
- ९ मामला
- १० आफ़त

शब्दार्थ

- १ सर्दी=ठण्ड
 - २ अक्ल=बुद्धि
 - ३ सैर=घूमना
 - ४ दौड़ना=भागना
 - ५ आफ़त=परेशानी
-

प्रश्नउत्तर

प्रश्न १ शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी ?

उत्तर :-शेर के बच्चे ने ज़मीन पर गिरने से बचने के लिए पेड़ की डाल पकड़ी थी ।

प्रश्न २ शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा ?

उत्तर :-डर के मारें शेर का बच्चा दहाड़ा।

प्रश्न ३ भालू साहब किस बात पर पछताए ?

उत्तर :-शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालने के लिए भालू साहब पछताए । क्योंकि उनके कारण उसे चोट लग सकती थी ।

प्रश्न ४ भालू ने क्यों कहा - ओह । किस आफ़त में आ फँसा ?

उत्तर :-भालू ने ओह इसलिए कहा क्योंकि उसने स्वयं को मुसीबत में फँसा लिया था । शेर का बच्चा उसे बार-बार उछालने के लिए कह रहा था । उसे अनेक बार उछालते -उछालते भालू थक गया था ।

सही और गलत बताएँ।

- 1.भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। ✓
 - २ शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। ✓
 - ३ भालू ने घर की ओर दौड़ नहीं लगाई। ×
 - ४ भालू साहब सैर पर नहीं निकले । ×
-

पाठ ३
म्याऊँ - म्याऊँ

कठिन शब्द

- १ चुहिया
 - २ म्याऊँ
 - ३ काँपने
 - ४ बहाना
 - ५ डराना
 - ६ सचमुच
 - ७ चूँटी
 - ८ सूझा
 - ९ खड़ी
 - १० मुझको
-

शब्दार्थ

- १ दोस्त = मित्र
 - २ नटखट = शरारती
 - ३ बहाना = टालना
 - ४ धीरे-धीरे = आराम से
 - ५ घड़ी-घड़ी = बार-बार
-

प्रश्नोत्तर

प्रश्न १: इस कविता में बिल्ली की आवाज किसने निकाली है ? उसका भी नाम सोचो ।

उत्तर: इस कविता में बिल्ली की आवाज एक लड़की ने निकाली है । उसका नाम झिलमिल हो सकता है ।

प्रश्न २ अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती ?

उत्तर: अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वह चुहिया को समझाती और उसे तंग करने से मना करती ।

नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें ।

१ सूझा :- तुम्हे इस प्रश्न का उत्तर सूझा ।

२ धीरे से :-रमेश ने मेरे कान में धीरे से कहा ।

३ सचमुच :-तुम सचमुच गाना जानते हो ।

४ बहाना :- हमारा बहाना काम कर गया ।

प्रश्न अँगूठे और उँगलियों से कौन-कौन से काम किए जा सकते हैं ?

उत्तर:- १ चुटकी बजाना

२ नमक डालना

३ करछी चलाना

४ सुई में धागा डालना

औपचारिक-पत्र

प्रधानाचार्या को दो दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र ।

सेवा में

प्रधानाचार्या जी,

वात्सल्य सी. से. स्कूल

हरिपुरा विदिशा (म. प्र.)

विषय -अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र हेतु।

महोदया,

सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल की कक्षा दूसरी का छात्र हूँ। मुझे आवश्यक कार्य आ जाने के कारण मैं स्कूल नहीं आ सकता। अतः आप मुझे दिनांक २०-४-२०२० से २२-४-२०२० तक अवकाश देने की कृपा करें।

धन्यवाद

आपका आज्ञाकारी शिष्य

क, ख, ग

कक्षा :-दूसरी

दिनांक २०-४-२०२०

टिप्पणी :-अनुशासन

- १ अनुशासन सफलता की कुंजी है।
- २ अनुशासन का अर्थ है, नियमों का पालन करना।
- ३ अनुशासन मनुष्य के विकास के लिए बहुत आवश्यक है।
- ४ विद्यार्थी हमारे देश का मुख्य आधार है।
- ५ विद्यार्थी को बचपन से ही अनुशासन में रखना चाहिए।
- ६ अनुशासन के द्वारा ही वह अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकता है।

.....X.....